



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 नवम्बर, 2020  
अग्रहायण 3, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,  
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/815-2020-4-125(वाराणसी)-2014  
लखनऊ, 24 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-352

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0 को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायतीराज, उ0 प्र0, लखनऊ, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा0नि0आ0-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद वाराणसी की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/450/2015-4-125(वाराणसी)-2014, दिनांक 2 मार्च, 2015 में विकास खण्ड काशीविद्यापीठ, हरहुआ, चिरईगांव की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्वारा स्थापित करती हूँ।

## सारिणी

## जनपद का नाम—वाराणसी

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	काशीविद्यापीठ	हरपालपुर	1 हरपालपुर	1	काशीविद्यापीठ	हरपालपुर	1 हरपालपुर
2	काशीविद्यापीठ	विशुनपुर	1 विशुनपुर	2	काशीविद्यापीठ	विशुनपुर	1 विशुनपुर
3	काशीविद्यापीठ	परमानन्दपुर	1 परमानन्दपुर	3	काशीविद्यापीठ	परमानन्दपुर	1 परमानन्दपुर
4	काशीविद्यापीठ	कोरौता	1 कोरौता	4	काशीविद्यापीठ	कोरौता	1 कोरौता
			2 गोपालपुर				2 गोपालपुर
5	काशीविद्यापीठ	घाटमपुर	1 उदयराजपुर	5	काशीविद्यापीठ	घाटमपुर	1 उदयराजपुर
			2 पिलखिनी				2 पिलखिनी
			3 घाटमपुर				3 घाटमपुर
6	काशीविद्यापीठ	खुलाशपुर	1 खुलाशपुर	6	काशीविद्यापीठ	खुलाशपुर	1 खुलाशपुर
			2 बलिरामपुर				2 बलिरामपुर
7	काशीविद्यापीठ	करसड़ा	1 करसड़ा	7	काशीविद्यापीठ	करसड़ा	1 करसड़ा
8	काशीविद्यापीठ	बेटावर	1 बेटावर	8	काशीविद्यापीठ	बेटावर	1 बेटावर
9	काशीविद्यापीठ	खनांव	1 खनांव	9	काशीविद्यापीठ	खनांव	1 खनांव
			2 भुआलपुर				2 भुआलपुर
10	काशीविद्यापीठ	बच्छांव	1 बच्छांव	10	काशीविद्यापीठ	बच्छांव	1 बच्छांव
11	काशीविद्यापीठ	गजाधरपुर	1 गजाधरपुर	11	काशीविद्यापीठ	गजाधरपुर	1 गजाधरपुर
12	काशीविद्यापीठ	छितौनी कोट	1 छितौनी कोट	12	काशीविद्यापीठ	छितौनी कोट	1 छितौनी कोट
13	काशीविद्यापीठ	बन्देपुर	1 बन्देपुर	13	काशीविद्यापीठ	बन्देपुर	1 बन्देपुर
			2 खलीलपुर				2 खलीलपुर
14	काशीविद्यापीठ	माधोपुर	1 माधोपुर	14	काशीविद्यापीठ	माधोपुर	1 माधोपुर
			2 बालीपुर				2 बालीपुर
15	काशीविद्यापीठ	हरिहरपुर	1 हरिहरपुर	15	काशीविद्यापीठ	हरिहरपुर	1 हरिहरपुर
			2 गोविन्दपुर				2 गोविन्दपुर
16	काशीविद्यापीठ	केशरीपुर	1 केशरीपुर	16	काशीविद्यापीठ	केशरीपुर	1 केशरीपुर
17	काशीविद्यापीठ	मडौली	1 मडौली		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
18	काशीविद्यापीठ	लखनपुर	1 लखनपुर	17	काशीविद्यापीठ	लखनपुर	1 लखनपुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
19	काशीविद्यापीठ	चुरामनपुर	1	चुरामनपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
20	काशीविद्यापीठ	चन्दापुर	1	चन्दापुर	18	काशीविद्यापीठ	चन्दापुर	1	चन्दापुर
21	काशीविद्यापीठ	भूल्लनपुर	1	भूल्लनपुर	19	काशीविद्यापीठ	भूल्लनपुर	1	भूल्लनपुर
22	काशीविद्यापीठ	कन्चनपुर	1	कन्चनपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
23	काशीविद्यापीठ	मंडाव	1	मंडाव	20	काशीविद्यापीठ	मंडाव	1	मंडाव
24	काशीविद्यापीठ	पहाडी	1	पहाडी		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	गनेशपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
25	काशीविद्यापीठ	कन्दवा	1	कन्दवा		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
26	काशीविद्यापीठ	भिखारीपुर	1	भिखारीपुरखुर्द		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	भिखारीपुर कलां		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
27	काशीविद्यापीठ	नाथूपुर	1 नाथूपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
28	काशीविद्यापीठ	जलालीपट्टी	1 जलालीपट्टी		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
29	काशीविद्यापीठ	रमसीपुर	1 रमसीपुर	21	काशीविद्यापीठ	रमसीपुर	1 रमसीपुर
30	काशीविद्यापीठ	फरीदपुर	1 फरीदपुर	22	काशीविद्यापीठ	फरीदपुर	1 फरीदपुर
			2 हंसापुर				2 हंसापुर
31	काशीविद्यापीठ	मिसिरपुर	1 मिसिरपुर	23	काशीविद्यापीठ	मिसिरपुर	1 मिसिरपुर
32	काशीविद्यापीठ	पण्डितपुर	1 पण्डितपुर	24	काशीविद्यापीठ	पण्डितपुर	1 पण्डितपुर
33	काशीविद्यापीठ	जफराबाद	1 जफराबाद	25	काशीविद्यापीठ	जफराबाद	1 जफराबाद
			2 दफलपुर				2 दफलपुर
34	काशीविद्यापीठ	देल्हना	1 देल्हना	26	काशीविद्यापीठ	देल्हना	1 देल्हना
			2 भदवर				2 भदवर
35	काशीविद्यापीठ	नरउर	1 नरउर	27	काशीविद्यापीठ	नरउर	1 नरउर
			2 बखानी				2 बखानी
36	काशीविद्यापीठ	ककरमत्ता	1 ककरमत्ता		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या-2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
37	काशीविद्यापीठ	चौदपुर	1 चौदपुर	28	काशीविद्यापीठ	चौदपुर	1 चौदपुर
38	काशीविद्यापीठ	महेशपुर	1 महेशपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
39	काशीविद्यापीठ	फुलवरिया	1 फुलवरिया		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
			2 बडागांव-प्रथम		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
40	काशीविद्यापीठ	शिवदासपुर	1 शिवदासपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
41	काशीविद्यापीठ	मडुवाडीह	1 मडुवाडीह		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
			2 तुलसीपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
42	काशीविद्यापीठ	लहरतारा	1 लहरतारा		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
			2 बडागांव (द्वितीय)		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
43	काशीविद्यापीठ	मूडादेव	1 मूडादेव	29	काशीविद्यापीठ	मूडादेव	1 मूडादेव
44	काशीविद्यापीठ	रमना	1 रमना	30	काशीविद्यापीठ	रमना	1 रमना
			2 नैपुराखुर्द				2 नैपुराखुर्द
			3 नरोत्तमपुर खुर्द				3 नरोत्तमपुर खुर्द
45	काशीविद्यापीठ	सरायडंगरी	1 सरायडंगरी खुर्द	31	काशीविद्यापीठ	सरायडंगरी	1 सरायडंगरी खुर्द
			2 सरायडंगरी कला				2 सरायडंगरी कला

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
46	काशीविद्यापीठ	नरोत्तमपुरकला	1	नरोत्तमपुरकला	32	काशीविद्यापीठ	नरोत्तमपुरकला	1	नरोत्तमपुरकला
47	काशीविद्यापीठ	कुरहुआं	1	कुरहुआं	33	काशीविद्यापीठ	कुरहुआं	1	कुरहुआं
48	काशीविद्यापीठ	तारापुर	1	तारापुर	34	काशीविद्यापीठ	तारापुर	1	तारापुर
49	काशीविद्यापीठ	टिकरी	1	टिकरी	35	काशीविद्यापीठ	टिकरी	1	टिकरी
50	काशीविद्यापीठ	छित्तपुर	1	छित्तपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
51	काशीविद्यापीठ	भगवानपुर	1	भगवानपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012 दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
52	काशीविद्यापीठ	सीरगोबर्द्धनपुर	1	सीरगोबर्द्धनपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
53	काशीविद्यापीठ	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर	36	काशीविद्यापीठ	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर
54	काशीविद्यापीठ	नुआंव	1	नुआंव		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
55	काशीविद्यापीठ	डाफी	1	डाफी	37	काशीविद्यापीठ	डाफी	1	डाफी
56	काशीविद्यापीठ	भीटी	1	भीटी	38	काशीविद्यापीठ	भीटी	1	भीटी
			2	टेंगरा				2	टेंगरा
			3	राल्हूपुर				3	राल्हूपुर
57	काशीविद्यापीठ	नैपुराकला	1	नैपुराकला	39	काशीविद्यापीठ	नैपुराकला	1	नैपुराकला
58	काशीविद्यापीठ	सूजाबाद	1	सूजाबाद		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2470/9-1-19-53 टी0ए0-16, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत सूजाबाद में समाहित किया गया।		
59	काशीविद्यापीठ	डोमरी	1	डोमरी		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2470/9-1-19-53 टी0ए0-16, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत सूजाबाद में समाहित किया गया।		

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
60	काशीविद्यापीठ	टडियां	1 टडियां	40	काशीविद्यापीठ	टडियां	1 टडियां
61	काशीविद्यापीठ	ककरहिया	1 ककरहिया	41	काशीविद्यापीठ	ककरहिया	1 ककरहिया
62	काशीविद्यापीठ	लखमीपुर	1 लखमीपुर	42	काशीविद्यापीठ	लखमीपुर	1 लखमीपुर
63	काशीविद्यापीठ	सरहरी	1 सरहरी	43	काशीविद्यापीठ	सरहरी	1 सरहरी
			2 मनोरथपुर				2 मनोरथपुर
			3 महेशपुर( द्वितीय)				3 महेशपुर (द्वितीय)
64	काशीविद्यापीठ	छितौनी	1 छितौनी	44	काशीविद्यापीठ	छितौनी	1 छितौनी
65	काशीविद्यापीठ	बखरिया	1 बखरिया	45	काशीविद्यापीठ	बखरिया	1 बखरिया
66	काशीविद्यापीठ	कोटवां	1 कोटवां	46	काशीविद्यापीठ	कोटवां	1 कोटवां
67	काशीविद्यापीठ	अखरी	1 अखरी	47	काशीविद्यापीठ	अखरी	1 अखरी
68	काशीविद्यापीठ	सुसुवाही	1 सुसुवाही		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
69	काशीविद्यापीठ	चितईपुर	1 चितईपुर ,		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
			2 पोंगलपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
70	काशीविद्यापीठ	अवलेशपुर	1 अवलेशपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
71	काशीविद्यापीठ	करौंदी	1 करौंदी		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
72	काशीविद्यापीठ	नासिरपुर	1	नासिरपुर		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184, 7-9-19, 42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
73	काशीविद्यापीठ	कादीपुर	1	कादीपुर	48	काशीविद्यापीठ	कादीपुर	1	कादीपुर
			2	नकाईन				2	नकाईन
74	काशीविद्यापीठ	सगहट	1	सगहट	49	काशीविद्यापीठ	सगहट	1	सगहट
75	काशीविद्यापीठ	अमराखैराचक	1	अमराखैराचक	50	काशीविद्यापीठ	अमराखैराचक	1	अमराखैराचक
76	काशीविद्यापीठ	लठिया	1	लठिया	51	काशीविद्यापीठ	लठिया	1	लठिया
77	काशीविद्यापीठ	खुशीपुर	1	खुशीपुर	52	काशीविद्यापीठ	खुशीपुर	1	खुशीपुर
78	काशीविद्यापीठ	बिशोखर	1	बिशोखर	53	काशीविद्यापीठ	बिशोखर	1	बिशोखर
			2	औढे				2	औढे
79	काशीविद्यापीठ	रामपुर	1	रामपुर	54	काशीविद्यापीठ	रामपुर	1	रामपुर
			2	मीरापुर				2	मीरापुर
			3	सदलपुर				3	सदलपुर
			4	जिगमा				4	जिगमा
			5	निविया				5	निविया
80	काशीविद्यापीठ	मंगलपुर	1	मंगलपुर	55	काशीविद्यापीठ	मंगलपुर	1	मंगलपुर
81	काशीविद्यापीठ	अलाउद्दीनपुर	1	अलाउद्दीनपुर	56	काशीविद्यापीठ	अलाउद्दीनपुर	1	अलाउद्दीनपुर
82	काशीविद्यापीठ	उचगांव	1	उचगांव	57	काशीविद्यापीठ	उचगांव	1	उचगांव
			2	दाउदपुर				2	दाउदपुर
83	काशीविद्यापीठ	अनन्तपुर	1	अनन्तपुर	58	काशीविद्यापीठ	अनन्तपुर	1	अनन्तपुर
			2	सभईपुर				2	सभईपुर
84	काशीविद्यापीठ	सुरही	1	सुरही	59	काशीविद्यापीठ	सुरही	1	सुरही
85	काशीविद्यापीठ	बनकट	1	बनकट	60	काशीविद्यापीठ	बनकट	1	बनकट
			2	नेवादा				2	नेवादा
86	काशीविद्यापीठ	घमहापुर	1	घमहापुर	61	काशीविद्यापीठ	घमहापुर	1	घमहापुर
87	काशीविद्यापीठ	भरथरा	1	भरथरा	62	काशीविद्यापीठ	भरथरा	1	भरथरा
			2	बेदौली				2	बेदौली
88	काशीविद्यापीठ	केराकतपुर	1	केराकतपुर	63	काशीविद्यापीठ	केराकतपुर	1	केराकतपुर
89	काशीविद्यापीठ	भितारी	1	भितारी	64	काशीविद्यापीठ	भितारी	1	भितारी



क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
90	काशीविद्यापीठ	लोहता	1	लोहता		काशीविद्यापीठ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2107/9-1-2019-05टी0 ए0-14, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर पंचायत लोहता बनाया गया।		
91	काशीविद्यापीठ	भट्ठी	1	भट्ठी	65	काशीविद्यापीठ	भट्ठी	1	भट्ठी
92	काशीविद्यापीठ	धन्नीपुर	1	धन्नीपुर	66	काशीविद्यापीठ	धन्नीपुर	1	धन्नीपुर
93	काशीविद्यापीठ	महमूदपुर	1	महमूदपुर	67	काशीविद्यापीठ	महमूदपुर	1	महमूदपुर
378	हरहुआ	मढ़वां	1	मढ़वां		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
379	हरहुआ	रमदतपुर	1	रमदतपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	हासिमपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
380	हरहुआ	सोयेपुर	1	सोयेपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
381	हरहुआ	ऐढ़े	1	ऐढ़े		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
382	हरहुआ	हरिबल्लमपुर	1	हरिबल्लमपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति				
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		
1	2	3	4	1	2	3	4		
			2	बनियांपुर		हरहुआ	ग्राम की आबादी कम होने के कारण निकट के ग्राम पंचायत आदमपुर में समाहित किया गया।		
383	हरहुआ	लमही	1	लमही		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	बनवारीपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
384	हरहुआ	रसूलपुर	1	रसूलपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	मझमिटियां		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
385	हरहुआ	मुर्दहा	1	मुर्दहां	1	हरहुआ	मुर्दहा	1	मुर्दहां
			2	धरमलपुर		हरहुआ		2	धरमलपुर
386	हरहुआ	वेलवरिया	1	बेलवरिया	2	हरहुआ	वेलवरिया	1	बेलवरिया
			2	काजीचक		हरहुआ		2	काजीचक
			3	सोनकडीह				3	सोनकडीह
387	हरहुआ	अटेसुआ	1	अटेसुआ	3	हरहुआ	अटेसुआ	1	अटेसुआ
388	हरहुआ	नकछेदपुर	1	नकछेदपुर	4	हरहुआ	नकछेदपुर	1	नकछेदपुर
			2	रैचन्दपुर				2	रैचन्दपुर
			3	एकला				3	एकला
389	हरहुआ	चौका	1	चौका	5	हरहुआ	चौका	1	चौका
			2	कृष्णापुर				2	कृष्णापुर
390	हरहुआ	दशनीपुर	1	दशनीपुर	6	हरहुआ	दशनीपुर	1	दशनीपुर
391	हरहुआ	पिसौर	1	पिसौर	7	हरहुआ	पिसौर	1	पिसौर
392	हरहुआ	भवानीपुर	1	भवानीपुर	8	हरहुआ	भवानीपुर	1	भवानीपुर
			2	कादीपुर				2	कादीपुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
393	हरहुआ	दानियालपुर	1	दानियालपुर	9	हरहुआ	दानियालपुर	1	दानियालपुर
394	हरहुआ	चमांव	1	चमांव	10	हरहुआ	चमांव	1	चमांव
395	हरहुआ	पश्चिमपुर	1	पश्चिमपुर	11	हरहुआ	पश्चिमपुर	1	पश्चिमपुर
			2	शहाबुद्दीनपुर				2	शहाबुद्दीनपुर
396	हरहुआ	अहिरान	1	अहिरान	12	हरहुआ	अहिरान	1	अहिरान
397	हरहुआ	कोइरान	1	कोइरान	13	हरहुआ	कोइरान	1	कोइरान
398	हरहुआ	शिवरामपुर	1	शिवरामपुर	14	हरहुआ	शिवरामपुर	1	शिवरामपुर
399	हरहुआ	सुलेमापुर	1	सुलेमापुर	15	हरहुआ	सुलेमापुर	1	सुलेमापुर
400	हरहुआ	अहिरौली	1	अहिरौली	16	हरहुआ	अहिरौली	1	अहिरौली
			2	हरदासपुर				2	हरदासपुर
401	हरहुआ	कांकलपुर	1	कांकलपुर	17	हरहुआ	कांकलपुर	1	कांकलपुर
			2	डिहवा				2	डिहवा
402	हरहुआ	कुरौली	1	कुरौली	18	हरहुआ	कुरौली	1	कुरौली
403	हरहुआ	हरहुआ	1	हरहुआ,	19	हरहुआ	हरहुआ	1	हरहुआ,
			2	कैलहट				2	कैलहट
			3	मंसापुर				3	मंसापुर
404	हरहुआ	चन्दीपट्टी	1	चन्दीपट्टी	20	हरहुआ	चन्दीपट्टी	1	चन्दीपट्टी
			2	नरायनपुर				2	नरायनपुर
			3	हरिशंकरपट्टी				3	हरिशंकरपट्टी
405	हरहुआ	सिंहापुर	1	सिंहापुर	21	हरहुआ	सिंहापुर	1	सिंहापुर
			2	धनेसरी				2	धनेसरी
			3	रामसिंहपुर				3	रामसिंहपुर
			4	विशुनपुर				4	विशुनपुर
			5	अनेकपुर				5	अनेकपुर
406	हरहुआ	कोईराजपुर	1	कोइराजपुर	22	हरहुआ	कोईराजपुर	1	कोइराजपुर
407	हरहुआ	भक्तपुर	1	भक्तपुर	23	हरहुआ	भक्तपुर	1	भक्तपुर
408	हरहुआ	वाजिदपुर	1	वाजिदपुर	24	हरहुआ	वाजिदपुर	1	वाजिदपुर
409	हरहुआ	दासेपुर	1	दासेपुर	25	हरहुआ	दासेपुर	1	दासेपुर
			2	वैजलपट्टी				2	वैजलपट्टी
410	हरहुआ	प्रतापपट्टी	1	प्रतापपट्टी	26	हरहुआ	प्रतापपट्टी	1	प्रतापपट्टी
			2	इदिलपुर				2	इदिलपुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
411	हरहुआ	भेलखा	1 भेलखा	27	हरहुआ	भेलखा	1 भेलखा
			2 मिर्जापुर				2 मिर्जापुर
			3 जैतपट्टी				3 जैतपट्टी
412	हरहुआ	भौमी	1 भौमी	28	हरहुआ	भौमी	1 भौमी
			2 उन्दी				2 उन्दी
			3 कोटखास				3 कोटखास
413	हरहुआ	सरसवा	1 सरसवा		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
			2 अहमदपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
414	हरहुआ	सुतबलपुर	1 सुतबलपुर	29	हरहुआ	सुतबलपुर	1 सुतबलपुर
415	हरहुआ	पलिया शम्भूपुर	1 पलिया शम्भूपुर	30	हरहुआ	पलिया शम्भूपुर	1 पलिया शम्भूपुर
416	हरहुआ	नोनौटी	1 नोनौटी	31	हरहुआ	नोनौटी	1 नोनौटी
			2 पट्टी जमन प्रयागपुर				2 पट्टी जमन प्रयागपुर
417	हरहुआ	जैपार	1 जैपार	32	हरहुआ	जैपार	1 जैपार
			2 खारी				2 खारी
418	हरहुआ	पलही पट्टी	1 पलही पट्टी	33	हरहुआ	पलही पट्टी	1 पलही पट्टी
419	हरहुआ	सरैया	1 सरैया(आयर)	34	हरहुआ	सरैया	1 सरैया (आयर)
420	हरहुआ	महदेपुर	1 महदेपुर	35	हरहुआ	महदेपुर	1 महदेपुर
421	हरहुआ	भोपापुर	1 भोपापुर	36	हरहुआ	भोपापुर	1 भोपापुर
422	हरहुआ	गहुरा	1 गहुरा	37	हरहुआ	गहुरा	1 गहुरा
			2 हीरापुर				2 हीरापुर
			3 आयठ				3 आयठ
423	हरहुआ	गोसाईपुर	1 गोसाईपुर	38	हरहुआ	गोसाईपुर	1 गोसाईपुर
			2 सराय कालीदास				2 सराय कालीदास

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति				
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		
1	2	3	4	1	2	3	4		
424	हरहुआ	भैठौली	1	भैठौली	39	हरहुआ	भैठौली	1	भैठौली
425	हरहुआ	राजापुर	1	राजापुर	40	हरहुआ	राजापुर	1	राजापुर
			2	महादेवपुर				2	महादेवपुर
426	हरहुआ	रामगांव	1	रामगांव	41	हरहुआ	रामगांव	1	रामगांव
427	हरहुआ	तेवर	1	तेवर	42	हरहुआ	तेवर	1	तेवर
428	हरहुआ	गुरवट	1	गुरवट	43	हरहुआ	गुरवट	1	गुरवट
429	हरहुआ	सभईपुर	1	सभईपुर	44	हरहुआ	सभईपुर	1	सभईपुर
			2	खड़गपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
430	हरहुआ	घमहापुर	1	घमहापुर	45	हरहुआ	घमहापुर	1	घमहापुर
431	हरहुआ	गनेशपुर	1	गनेशपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	तरना (छोरहा)		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
432	हरहुआ	हटिया	1	हटिया		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
433	हरहुआ	बासदेवपुर	1	हरिहरपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	बासदेवपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
434	हरहुआ	चुप्पेपुर	1	चुप्पेपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	छतरीपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी- 2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			1	बक्सरा		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
435	हरहुआ	भगवानपुर	1	भगवानपुर	46	हरहुआ	भगवानपुर	1	भगवानपुर
			2	सिकन्दरपुर				2	सिकन्दरपुर
			3	आशापुर				3	आशापुर
436	हरहुआ	चक्का	1	चक्का	47	हरहुआ	चक्का	1	चक्का
437	हरहुआ	भटौली	1	भटौली	48	हरहुआ	भटौली	1	भटौली
			2	दुनियापुर				2	दुनियापुर
			3	लुच्चेपुर				3	लुच्चेपुर
438	हरहुआ	सरायकाजी	1	सरायकाजी	49	हरहुआ	सरायकाजी	1	सरायकाजी
			2	महादेवपुर				2	महादेवपुर
439	हरहुआ	बेरवां	1	बेरवां	50	हरहुआ	बेरवां	1	बेरवां
			2	पाण्डेयपुर				2	पाण्डेयपुर
440	हरहुआ	औसानपुर	1	औसानपुर	51	हरहुआ	औसानपुर	1	औसानपुर
441	हरहुआ	करोमा	1	करोमा	52	हरहुआ	करोमा	1	करोमा
			2	गहरवारपुर				2	गहरवारपुर
442	हरहुआ	अनौरा	1	अनौरा	53	हरहुआ	अनौरा	1	अनौरा
			2	गोसाईपुर				2	गोसाईपुर
443	हरहुआ	गोकुलपुर	1	गोकुलपुर	54	हरहुआ	गोकुलपुर	1	गोकुलपुर
			2	सरायस्वामी				2	सरायस्वामी
			3	सहमलपुर				3	सहमलपुर
			4	सुरवा				4	सुरवा

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
444	हरहुआ	गढवॉ	1	गढवॉ	55	हरहुआ	गढवॉ	1	गढवॉ
			2	रामपुर				2	रामपुर
445	हरहुआ	उदयपुर	1	उदयपुर	56	हरहुआ	उदयपुर	1	उदयपुर
			2	साईपुर				2	साईपुर
			3	तारापुर				3	तारापुर
			4	बहलोलपुर				4	बहलोलपुर
			5	निदौरा				5	निदौरा
446	हरहुआ	आदमपुर	1	आदमपुर	57	हरहुआ	आदमपुर	1	आदमपुर
			2	अमौलिया				2	अमौलिया
			3	फकीरपुर				3	फकीरपुर
								4	बनियापुर
447	हरहुआ	चन्दापुर	1	चन्दापुर	58	हरहुआ	चन्दापुर	1	चन्दापुर
448	हरहुआ	बलुआ	1	बलुआ	59	हरहुआ	बलुआ	1	बलुआ
			2	धूरीपुर				2	धूरीपुर
			3	बड़वांपुर				3	बड़वांपुर
			4	इटवां (भिसिरपुर)				4	इटवां (भिसिरपुर)
			5	भगतपुर				5	भगतपुर
			6	टेकीपुर				6	टेकीपुर
449	हरहुआ	दादूपुर	1	दादूपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
450	हरहुआ	बड़ालालपुर	1	बड़ालालपुर	60	हरहुआ	बड़ालालपुर	1	बड़ालालपुर
451	हरहुआ	लोढ़ान	1	लोढ़ान		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
452	हरहुआ	कानूडीह	1	कानूडीह		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।		

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
453	हरहुआ	परमानन्दपुर	1 परमानन्दपुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
454	हरहुआ	होलापुर	1 होलापुर		हरहुआ	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
455	हरहुआ	बीरापट्टी	1 बीरापट्टी	61	हरहुआ	बीरापट्टी	1 बीरापट्टी
456	हरहुआ	रैसीपट्टी	1 रैसीपट्टी	62	हरहुआ	रैसीपट्टी	1 रैसीपट्टी
			2 जमालपट्टी				2 जमालपट्टी
			3 धनेज पट्टी				3 धनेज पट्टी
			4 मधईपुर				4 मधईपुर
			5 तुलसीपट्टी				5 तुलसीपट्टी
457	हरहुआ	माधोपुर	1 माधोपुर	63	हरहुआ	माधोपुर	1 माधोपुर
458	हरहुआ	पूरबपुर	1 पूरबपुर	64	हरहुआ	पूरबपुर	1 पूरबपुर
			2 खानपट्टी				2 खानपट्टी
459	हरहुआ	मोहनपुर	1 मोहनपुर	65	हरहुआ	मोहनपुर	1 मोहनपुर
			2 अमावर				2 अमावर
			3 सरैया				3 सरैया
460	हरहुआ	बहोरीपुर	1 देवनाथपुर	66	हरहुआ	बहोरीपुर	1 देवनाथपुर
			2 बहोरीपुर				2 बहोरीपुर
			3 बझियांबारी				3 बझियांबारी
461	हरहुआ	बेदी	1 बेदी	67	हरहुआ	बेदी	1 बेदी
462	हरहुआ	इन्द्रवार	1 इन्द्रवार	68	हरहुआ	इन्द्रवार	1 इन्द्रवार
			2 प्रयागपुर				2 प्रयागपुर
			3 जगासीपट्टी				3 जगासीपट्टी
			4 निमिददीपुर				4 निमिददीपुर
			5 हरिरामपुर				5 हरिरामपुर
463	हरहुआ	आयर	1 आयर	69	हरहुआ	आयर	1 आयर
464	हरहुआ	गहनी	1 गहनी	70	हरहुआ	गहनी	1 गहनी
465	हरहुआ	औरा	1 औरा	71	हरहुआ	औरा	1 औरा
466	हरहुआ	वेनीपुर	1 वेनीपुर खुर्द	72	हरहुआ	वेनीपुर	1 वेनीपुर खुर्द
			2 अजोर पट्टी				2 अजोर पट्टी



क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
467	हरहुआ	पुआरीकलां	1	पुआरीकलां	73	हरहुआ	पुआरीकलां	1	पुआरीकलां
468	हरहुआ	पुआरी खुर्द	1	पुआरी खुर्द	74	हरहुआ	पुआरी खुर्द	1	पुआरी खुर्द
469	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव	75	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव
470	हरहुआ	कोहासी	1	कोहासी	76	हरहुआ	कोहासी	1	कोहासी
471	हरहुआ	भटपुरवा कलां	1	भटपुरवां कलां	77	हरहुआ	भटपुरवा कलां	1	भटपुरवां कलां
472	हरहुआ	जमुनीपुर	1	जमुनीपुर	78	हरहुआ	जमुनीपुर	1	जमुनीपुर
473	हरहुआ	भोहर	1	भोहर	79	हरहुआ	भोहर	1	भोहर
578	चिरईगांव	लूठाकला	1	लूठाकला	1	चिरईगांव	लूठाकला	1	लूठाकला
			2	लूठाखुर्द				2	लूठाखुर्द
579	चिरईगांव	धोबही	1	धोबही	2	चिरईगांव	धोबही	1	धोबही
580	चिरईगांव	सरसौल	1	सरसौल	3	चिरईगांव	सरसौल	1	सरसौल
581	चिरईगांव	मिश्रपुरा	1	मिश्रपुरा	4	चिरईगांव	मिश्रपुरा	1	मिश्रपुरा
582	चिरईगांव	धराधर	1	धराधर	5	चिरईगांव	धराधर	1	धराधर
			2	बकइनी				2	बकइनी
			3	देवरिया				3	देवरिया
			4	गंगापुर				4	गंगापुर
583	चिरईगांव	छितौनी	1	छितौनी	6	चिरईगांव	छितौनी	1	छितौनी
584	चिरईगांव	कुकुड़ा	1	कुकुड़ा	7	चिरईगांव	कुकुड़ा	1	कुकुड़ा
585	चिरईगांव	अम्बा	1	अम्बा	8	चिरईगांव	अम्बा	1	अम्बा
586	चिरईगांव	अमौली	1	अमौली	9	चिरईगांव	अमौली	1	अमौली
587	चिरईगांव	रैमला	1	रैमला	10	चिरईगांव	रैमला	1	रैमला
588	चिरईगांव	शिवदशॉ	1	शिवदशॉ	11	चिरईगांव	शिवदशॉ	1	शिवदशॉ
			2	शिवदशा गंगवार				2	शिवदशा गंगवार
			3	शिवनाथपुर				3	शिवनाथपुर
589	चिरईगांव	सिरिस्ती	1	सिरिस्ती	12	चिरईगांव	सिरिस्ती	1	सिरिस्ती
590	चिरईगांव	उकथी	1	उकथी	13	चिरईगांव	उकथी	1	उकथी
591	चिरईगांव	रामपुर	1	रामपुर	14	चिरईगांव	रामपुर	1	रामपुर
592	चिरईगांव	बथराकला	1	बथराकला	15	चिरईगांव	बथराकला	1	बथराकला
			2	बथरागंगवार				2	बथरागंगवार
			3	पंडितपुर				3	पंडितपुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
593	चिरईगांव	मुरीदपुर	1	मुरीदपुर	16	चिरईगांव	मुरीदपुर	1	मुरीदपुर
			2	अवधीपुर				2	अवधीपुर
594	चिरईगांव	चुकहॉ	1	चुकहॉ	17	चिरईगांव	चुकहॉ	1	चुकहॉ
595	चिरईगांव	सोनबरसा	1	सोनबरसा	18	चिरईगांव	सोनबरसा	1	सोनबरसा
596	चिरईगांव	ब्यासपुर	1	ब्यासपुर	19	चिरईगांव	ब्यासपुर	1	ब्यासपुर
			2	गिरधरपुर				2	गिरधरपुर
			3	गोकुलपुर				3	गोकुलपुर
			4	झांझूपुर				4	झांझूपुर
597	चिरईगांव	परनापुर	1	परनापुर	20	चिरईगांव	परनापुर	1	परनापुर
			2	कुड़ाव				2	कुड़ाव
598	चिरईगांव	नरायनपुर	1	नरायनपुर	21	चिरईगांव	नरायनपुर	1	नरायनपुर
599	चिरईगांव	रमना	1	रमना	22	चिरईगांव	रमना	1	रमना
600	चिरईगांव	तोफापुर	1	तोफापुर	23	चिरईगांव	तोफापुर	1	तोफापुर
			2	कोची				2	कोची
601	चिरईगांव	मिल्कोपुर	1	मिल्कोपुर	24	चिरईगांव	मिल्कोपुर	1	मिल्कोपुर
602	चिरईगांव	बराई	1	बराई	25	चिरईगांव	बराई	1	बराई
603	चिरईगांव	डुबकिया	1	डुबकिया	26	चिरईगांव	डुबकिया	1	डुबकिया
			2	हुसेपुर				2	हुसेपुर
			3	जिगना				3	जिगना
604	चिरईगांव	नरपतपुर	1	नरपतपुर	27	चिरईगांव	नरपतपुर	1	नरपतपुर
			2	चुहरपुर				2	चुहरपुर
605	चिरईगांव	पहड़िया	1	पहड़िया	28	चिरईगांव	पहड़िया	1	पहड़िया
606	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द	1	कादीपुर खुर्द	29	चिरईगांव	कादीपुर खुर्द	1	कादीपुर खुर्द
607	चिरईगांव	बनकट	1	बनकट	30	चिरईगांव	बनकट	1	बनकट
			2	कटेसरकला				2	कटेसरकला
			3	कटेसरखुर्द				3	कटेसरखुर्द
608	चिरईगांव	शाहपुर	1	शाहपुर	31	चिरईगांव	शाहपुर	1	शाहपुर
609	चिरईगांव	गौरडीह	1	गौरडीह	32	चिरईगांव	गौरडीह	1	गौरडीह
			2	भगवानपुर				2	भगवानपुर
			3	चकवासदेव				3	चकवासदेव
610	चिरईगांव	पनिहरी	1	पनिहरी	33	चिरईगांव	पनिहरी	1	पनिहरी
			2	दानियालपुर				2	दानियालपुर
			3	कोदोपुरकला				3	कोदोपुरकला
			4	कोदोपुर खुर्द				4	कोदोपुर खुर्द

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
611	चिरईगांव	बीकापुर	1 बीकापुर	34	चिरईगांव	बीकापुर	1 बीकापुर
			2 पर्वतपुर				2 पर्वतपुर
612	चिरईगांव	खेतलपुर	1 खेतलपुर	35	चिरईगांव	खेतलपुर	1 खेतलपुर
			2 खुटहना				2 खुटहना
613	चिरईगांव	रमगढ़वा	1 रमगढ़वा	36	चिरईगांव	रमगढ़वा	1 रमगढ़वा
614	चिरईगांव	खरगीपुर	1 खरगीपुर	37	चिरईगांव	खरगीपुर	1 खरगीपुर
615	चिरईगांव	तरयां	1 तरयां	38	चिरईगांव	तरयां	1 तरयां
616	चिरईगांव	पूरनपट्टी	1 पूरनपट्टी	39	चिरईगांव	पूरनपट्टी	1 पूरनपट्टी
617	चिरईगांव	पियरी	1 पियरी	40	चिरईगांव	पियरी	1 पियरी
			2 मुड़ली				2 मुड़ली
618	चिरईगांव	छोँही	1 छोँही	41	चिरईगांव	छोँही	1 छोँही
			2 दामोदरपुर				2 दामोदरपुर
			3 ब्यासपुर				3 ब्यासपुर
			4 धनन्जयपुर				4 धनन्जयपुर
619	चिरईगांव	सरैया नं०2	1 सरैया नं०2	42	चिरईगांव	सरैया नं०2	1 सरैया नं०2
620	चिरईगांव	जयरामपुर	1 जयरामपुर	43	चिरईगांव	जयरामपुर	1 जयरामपुर
621	चिरईगांव	अइली	1 अइली	44	चिरईगांव	अइली	1 अइली
			2 सरैया नं०1				2 सरैया नं०1
622	चिरईगांव	गोपपुर	1 गोपपुर	45	चिरईगांव	गोपपुर	1 गोपपुर
623	चिरईगांव	अल्लोपुर	1 अल्लोपुर	46	चिरईगांव	अल्लोपुर	1 अल्लोपुर
624	चिरईगांव	अमरपट्टी	1 अमरपट्टी	47	चिरईगांव	अमरपट्टी	1 अमरपट्टी
			2 इमिलिया				2 इमिलिया
625	चिरईगांव	नवापुरा	1 नवापुरा	48	चिरईगांव	नवापुरा	1 नवापुरा
			2 विपरजेपुर				2 विपरजेपुर
			3 बालकिशुनपुर				3 बालकिशुनपुर
626	चिरईगांव	संथवा	1 संथवा	49	चिरईगांव	संथवा	1 संथवा
			2 हुलसीपुर				2 हुलसीपुर
627	चिरईगांव	रजनहियों	1 रजनहियों		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा में नगर निगम वाराणसी में समाहित।	

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
628	चिरईगांव	गोइठहा	1	गोइठहा		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
629	चिरईगांव	हृदयपुर	1	हृदयपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
630	चिरईगांव	सिंहपुर	1	सिंहपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			2	हसनपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			3	मुग्दलपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
			4	खजुही			नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
631	चिरईगांव	पतेरवां	1	पतेरवां	50	चिरईगांव	पतेरवां	1	पतेरवां
632	चिरईगांव	भसौड़ी	1	भसौड़ी	51	चिरईगांव	भसौड़ी	1	भसौड़ी
633	चिरईगांव	फरीदपुर	1	फरीदपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
634	चिरईगांव	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर	52	चिरईगांव	सुल्तानपुर	1	सुल्तानपुर
635	चिरईगांव	उमरहॉ	1	उमरहॉ	53	चिरईगांव	उमरहॉ	1	उमरहॉ
636	चिरईगांव	खानपुर	1	खानपुर	54	चिरईगांव	खानपुर	1	खानपुर

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
637	चिरईगांव	सीवों	1 सीवों	55	चिरईगांव	सीवों	1 सीवों
638	चिरईगांव	बरियासनपुर	1 बरियासनपुर	56	चिरईगांव	बरियासनपुर	1 बरियासनपुर
639	चिरईगांव	चिरईगांव	1 चिरईगांव	57	चिरईगांव	चिरईगांव	1 चिरईगांव
640	चिरईगांव	दीनापुर	1 दीनापुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
641	चिरईगांव	लेढूपुर	1 लेढूपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
642	चिरईगांव	रुस्तमपुर	1 रुस्तमपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
643	चिरईगांव	सन्दहॉ	1 सन्दहॉ		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
644	चिरईगांव	हिरामनपुर	1 हिरामनपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
645	चिरईगांव	तिलमापुर	1 तिलमापुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	
646	चिरईगांव	आशापुर	1 आशापुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।	

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति			
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम			विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	
1	2	3	4		1	2	3	4	
647	चिरईगांव	रसूलगढ़	1	रसूलगढ़		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
648	चिरईगांव	सलारपुर	1	सलारपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
649	चिरईगांव	रघुनाथपुर	1	रघुनाथपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
650	चिरईगांव	खालिसपुर	1	खालिसपुर		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
651	चिरईगांव	कोटवां	1	कोटवां		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
652	चिरईगांव	सरायमोहना	1	सरायमोहना		चिरईगांव	नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 2184/7-9-19/42 वाराणसी-2012, दिनांक 5 दिसम्बर, 2019 के द्वारा नगर निगम वाराणसी में समाहित।		
653	चिरईगांव	तातेपुर	1	तातेपुर	58	चिरईगांव	तातेपुर	1	तातेपुर
			2	राजापुर				2	राजापुर
654	चिरईगांव	कमौली	1	कमौली	59	चिरईगांव	कमौली	1	कमौली
655	चिरईगांव	नेवादा	1	नेवादा	60	चिरईगांव	नेवादा	1	नेवादा
656	चिरईगांव	गौराकला	1	गौराकला	61	चिरईगांव	गौराकला	1	गौराकला
			2	प्रहलादपुर				2	प्रहलादपुर
			3	आराजीनेवादा				3	आराजीनेवादा
			4	गौराखुर्द				4	गौराखुर्द
			5	चक नेवादा				5	चक नेवादा

क्र० सं०	वर्तमान स्थिति			क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायतवार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम		विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
657	चिरईगांव	शंकरपुर	1 शंकरपुर	62	चिरईगांव	शंकरपुर	1 शंकरपुर
658	चिरईगांव	मढ़नी	1 मढ़नी	63	चिरईगांव	मढ़नी	1 मढ़नी
659	चिरईगांव	सरैया	1 सरैया	64	चिरईगांव	सरैया	1 सरैया
			2 विशुनपुरा				2 विशुनपुरा
660	चिरईगांव	जाल्हूपुर	1 जाल्हूपुर	65	चिरईगांव	जाल्हूपुर	1 जाल्हूपुर
661	चिरईगांव	पंचरांव	1 पंचरांव	66	चिरईगांव	पंचरांव	1 पंचरांव
662	चिरईगांव	फुलपुर	1 फुलपुर	67	चिरईगांव	फुलपुर	1 फुलपुर
663	चिरईगांव	रैपुरा	1 रैपुरा	68	चिरईगांव	रैपुरा	1 रैपुरा
664	चिरईगांव	सिंहवार	1 सिंहवार	69	चिरईगांव	सिंहवार	1 सिंहवार
665	चिरईगांव	बभनपुरा	1 बभनपुरा	70	चिरईगांव	बभनपुरा	1 बभनपुरा
666	चिरईगांव	चौदपुर	1 चौदपुर	71	चिरईगांव	चौदपुर	1 चौदपुर
667	चिरईगांव	मुस्तफाबाद	1 मुस्तफाबाद	72	चिरईगांव	मुस्तफाबाद	1 मुस्तफाबाद
668	चिरईगांव	छितौना	1 छितौना	73	चिरईगांव	छितौना	1 छितौना
669	चिरईगांव	मोकलपुर	1 मोकलपुर	74	चिरईगांव	मोकलपुर	1 मोकलपुर
670	चिरईगांव	गोबरहा	1 गोबरहा	75	चिरईगांव	गोबरहा	1 गोबरहा
			2 रामपुर				2 रामपुर
671	चिरईगांव	रामचन्दीपुर	1 रामचन्दीपुर	76	चिरईगांव	रामचन्दीपुर	1 रामचन्दीपुर

आज्ञा से,  
किंजल सिंह,  
निदेशक,  
पंचायतीराज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 434 राजपत्र-2020-(963) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।  
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 26 सा० पंचायतीराज-2020-(964)132 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।